

# Num

## Chapter 29

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

מְלֹאכֶת	כָּל-	לְכֶם	יְהִי	קִדְשׁ	מִקְרָא-	לְחֹדֶשׁ	בְּאֶחָד	הַשְּׂבִיעִי	וּבְחֹדֶשׁ	1
काम	कोई-भी	तुम्हारे-लिए	होगी	पवित्र	पवित्र-सभा	महीने-के	पहली-को	सातवें	और-महीने-में	
<a href="#">H4399</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H4744</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H2320</a>	
		לְכֶם:	יְהִי	תְרוּעָה	יוֹם	תַּעֲשׂוּ	לֹא	עֲבֹדָה		
		तुम्हारे-लिए	होगा	नरसिंगे-का	दिन	तुम-करोगे	नहीं	सेवकाई-का		
			<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8643</a>	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5656</a>		

“सातवें महीने के प्रथम दिन एक विशेष बैठक होगी। तुम उस दिन कोई काम नहीं करोगे। वह बिगुल बजाने का दिन है।

אֶחָד	אֵיל	אֶחָד	בָּקָר	בֶּן-	פֶּה	לְיְהוָה	נִיחֹחַ	לְרִיחַ	עֹלָה	וַעֲשִׂיתֶם	2
एक	मेढ़ा	एक	गाय-का	पुत्र	बैल	यहोवा-को	सुखदायक	सुगंध-के-लिए	होमबलि	और-तुम-करोगे	
<a href="#">H0259</a>		<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H1241</a>		<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H7381</a>			
						תְּמִימִם:	שָׁבָעָה	שָׁנָה	בְּנֵי-	כִּבְשִׂים	
						निर्दोष	सात	वर्ष-के	पुत्र	मेमने	
						<a href="#">H8549</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H8141</a>		<a href="#">H3532</a>	

तुम होमबलि चढ़ाओगे। ये भैंटे यहोवा के लिए मधुर गन्ध होगी। तुम दोष रहित एक साँड़, एक मेढ़ा और एक वर्ष के सात मेमनों की भैंट चढ़ाओगे।

לְאֵיל:	עֶשְׂרִים	שְׁנֵי	לְפָר	עֶשְׂרִים	שְׁלֹשָׁה	בְּשֶׁמֶן	בְּלוּלָה	סֵלֶת	וּמִנְחָתָם	3
मेढ़े-के-लिए	दसवें-भाग	दो	बैल-के-लिए	दसवें-भाग	तीन	तेल-में	मिला-हुआ	मैदा	और-अन्नबलि-इनकी	
	<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H8081</a>		<a href="#">H5560</a>	<a href="#">H4503</a>	

तुम छः क्वार्ट तेल मिला अच्छा आटा भी बैल के साथ, चार क्वार्ट मेढ़े के साथ और

הַכִּבְשִׂים:	לְשִׁבְעָת	הָאֶחָד	לְכִבְשׁ	אֶחָד	וַעֲשִׂרוֹן	4
मेमनों-के	सात-के-लिए	एक-के	मेमने-के-लिए	एक	और-दसवां-भाग	
<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H6241</a>	

सात मेमनों में से हर एक के साथ दो क्वार्ट आटे की भैंट चढ़ाओगे।

עֲלֵיכֶם:	לְכַפֵּר	חֲטָאת	אֶחָד	עֲזִים	וְשֵׂעִיר-	5
तुम्हारे-लिए	प्रायश्चित्त-करने-को	पापबलि	एक	बकरियों-का	और-बकरा	
			<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H5795</a>		

इसके अतिरिक्त, पापबलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाओगे। यह तुम्हारे पापों को ढकेगी।

וּנְסִיבָהּ	וּמִנְחָתָהּ	הַתְּמִידָה	וְעֹלֹת	וּמִנְחָתָהּ	הַחֹדֶשׁ	עֹלֹת	מִלְבָּד	6
और-अर्घ-इनके	और-अन्नबलि-इसकी	नित्य-की	और-होमबलि	और-अन्नबलि-इसकी	महीने-की	होमबलि	के-अतिरिक्त	
<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H8548</a>		<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H2320</a>		<a href="#">H0905</a>	
		ס	לְיְהוָה:	אֵשׁ	נִיחֹחַ	לְרִיחַ	כַּמְשַׁפְטָם	
		—	यहोवा-के-लिए	अग्नि-बलि	सुखदायक	सुगंध-के-लिए	नियम-अनुसार	
			<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0801</a>	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H4941</a>	

ये भैंटे नवचन्द्र बलि और उसकी अन्नबलि के अतिरिक्त होगी और ये नित्य की भैंटों, इसकी अन्नबलियों तथा पेय भैंटों के अतिरिक्त होगी। ये नियम के अनुसार की जानी चाहिए। इन्हें आग में जलाना चाहिए। इसकी सुगन्धि यहोवा को प्रसन्न करेगी।

אֶת- को	וְעִיָּתָם और-तुम-दुखित-करोगे	לָכֵם तुम्हारे-लिए	יְהוּיָה होगी	קָדָשׁ पवित्र	מִקְרָא- पवित्र-सभा	הַזֶּה इस	הַשְּׁבִיעִי सातवें	לְחֹדֶשׁ महीने-के	וּבְעֶשְׂרִים और-दसवें-को	7
<a href="#">H0853</a>			<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H4744</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H6218</a>	

וְנִפְשְׁתִּיכֶם  
प्राणों-तुम्हारे

כָּל-  
कोई-भी

מְלָאכָה  
काम

לֹא  
नहीं

תַּעֲשׂוּ:  
तुम-करोगे

[H3808](#)

[H4399](#)

[H3605](#)

[H5315](#)

“सातवें महीने के दसवें दिन एक विशेष बैठक होगी। उस दिन तुम उपवास करोगे और तुम कोई काम नहीं करोगे।

אֶחָד एक	אֵיל मेढ्रा	אֶחָד एक	בָּקָר गाय-का	בֶּן- पुत्र	פָּר बैल	נִיחֹחַ सुखदायक	רִיחַ सुगंध	לְיְהוָה यहोवा-को	עֹלָה होमबलि	וְהִקְרַבְתֶּם और-तुम-चढ़ाओगे	8
<a href="#">H0259</a>		<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H1241</a>		<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H7126</a>	

כְּבָשִׁים  
मेम्ने

בְּנֵי-  
पुत्र

שָׁנָה  
वर्ष-के

שִׁבְעָה  
सात

תְּמִימִם  
निर्दोष

יְהוּי  
होंगे

לָכֵם:  
तुम्हारे-लिए

[H1961](#)

[H8549](#)

[H7651](#)

[H8141](#)

[H3532](#)

तुम होमबलि दोगे। यह यहोवा के लिए मधुर गन्ध होगी। तुम दोष रहित दो साँड, एक मेढ्रा और एक वर्ष के सात मेमनों की भेंट चढ़ाओगे।

לְאֵיל मेढ्रे-के-लिए	עֶשְׂרִים दसवें-भाग	שְׁנַי दो	לְפָר बैल-के-लिए	עֶשְׂרִים दसवें-भाग	שְׁלֹשָׁה तीन	בְּשֶׁמֶן तेल-में	בְּלוּלָה मिला-हुआ	סֵלֶת मैदा	וּמִנְחָתָם और-अन्नबलि-इनकी	9
	<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H8081</a>		<a href="#">H5560</a>	<a href="#">H4503</a>	

הָאֶחָד:  
एक-के

[H0259](#)

तुम हर एक बैल के साथ जैतून के मिले हुए छः क्वार्ट आटे, मेढ्रे के साथ चार क्वार्ट आटे

עֶשְׂרִים दसवां-भाग	עֶשְׂרִים दसवां-भाग	לְשִׁבְעָת सात-के-लिए	הָאֶחָד एक-के	לְכֶבֶשׂ मेम्ने-के-लिए	עֶשְׂרִים दसवां-भाग	עֶשְׂרִים दसवां-भाग	10
<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H6241</a>	<a href="#">H6241</a>	

और हर एक सातों मेमनों के साथ दो क्वार्ट आटे की भेंट चढ़ाओगे।

שְׁעִיר- बकरा	עֲזִים बकरियों-का	אֶחָד एक	חֲטָאת पापबलि	מִזְבֵּחַ के-अतिरिक्त	חֲטָאת पापबलि	וְעֹלֹת और-होमबलि	הַתְּמִיד नित्य-की	11
	<a href="#">H5795</a>	<a href="#">H0259</a>		<a href="#">H0905</a>		<a href="#">H3725</a>	<a href="#">H8548</a>	

וּמִנְחָתָהּ  
और-अन्नबलि-इसकी

וְנֹסְכֵיהֶם:  
और-अर्घ-इनके

—

[H5262](#)

[H4503](#)

तुम एक बकरा भी पापबलि के रूप में चढ़ाओगे। यह प्रायश्चित्त के दिन की पापबलि के अतिरिक्त होगी। यह दैनिक बलि, अन्न और पेय भेंटों के भी अतिरिक्त होगी।

וּבַחֲמִשָּׁה और-पंद्रहवें	עֶשְׂרִים दस	יּוֹם दिन	לְחֹדֶשׁ महीने-के	הַשְּׁבִיעִי सातवें	מִקְרָא- पवित्र-सभा	קָדָשׁ पवित्र	יְהוּיָה होगी	לָכֵם तुम्हारे-लिए	כָּל- कोई-भी	מְלָאכָה काम	12
<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H4744</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4399</a>	

עֲבָדָה  
सेवकाई-का

לֹא  
नहीं

תַּעֲשׂוּ  
तुम-करोगे

וְחָגְתֶם  
और-तुम-मनाओगे

חָג  
पर्व

לְיְהוָה  
यहोवा-के-लिए

שִׁבְעָת  
सात

יָמִים:  
दिन

[H3117](#)

[H7651](#)

[H3068](#)

[H2282](#)

[H2287](#)

[H3808](#)

[H5656](#)

“सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन एक विशेष बैठक होगी। तुम उस दिन कोई काम नहीं करोगे। तुम यहोवा के लिए सात दिन तक छुट्टी मनाओगे।

13  
 עֶשְׂרָה בְּקָרְבָּן בְּנֵי לֵוִי הָיָה אֵשֶׁת רִיחַ נִיחֹחַ לְיְהוָה פְּרִים לְהוֹמֵבֵלִים וְהִקְרַבְתֶּם  
 दस तेरह गाय-के पुत्र बैल यहीवा-को सुखदायक सुगंध अग्नि-बलि होमबलि और-तुम-चढ़ाओगे  
[H6240](#) [H7969](#) [H1241](#) [H6499](#) [H3068](#) [H5207](#) [H7381](#) [H0801](#) [H7126](#)

אֵלִים שְׁנַיִם כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה אַרְבָּעָה עֶשְׂרָה תְּמִימִים יְהִיוּ:  
 मेढे दो मेढे पुत्र वर्ष-के पुत्र चोदह दस निर्दोष होंगे  
[H1961](#) [H8549](#) [H6240](#) [H0702](#) [H8141](#) [H3532](#) [H8147](#)

तुम होमबलि चढ़ाओगे। यह यहीवा के लिए मधुर गन्ध होगी। तुम दोष रहित तेरह साँड, दो मेढे और एक—एक वर्ष के चोदह मेमने भेंट चढ़ाओगे।

14  
 וּמִנְחָתָם וּמִלֵּאָה בְּשֶׁמֶן שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרִים לֶפֶד הָאֶחָד לְשֵׁלֶשֶׁה עֶשְׂרָה  
 और-अन्नबलि-इनकी मैदा मिला-हुआ तेल-में तीन दसवें-भाग बैल-के-लिए एक-के  
[H5560](#) [H4503](#) [H8081](#) [H7969](#) [H6241](#) [H6499](#) [H0259](#) [H7969](#) [H6240](#)

פְּרִים שְׁנֵי עֶשְׂרִים לְאֵילִים הָאֵלִים: שְׁנֵי הָאֶחָד לְשֵׁלֶשֶׁה עֶשְׂרִים  
 बैलों-के दो दसवें-भाग मेढे-के-लिए एक-के दो-के-लिए दो-के-लिए मेढों-के  
[H6241](#) [H8147](#) [H6499](#) [H8147](#) [H0259](#) [H8147](#)

तुम तेरह बैलों में से हर एक के साथ जैतून के साथ मिले हुए छः क्वार्ट आटे, दोनों मेढों में से हर एक के लिए चार क्वार्ट

15  
 וְעֶשְׂרֹן עֶשְׂרֹן לְקֶבֶשׁ הָאֶחָד עֶשְׂרִים עֶשְׂרֹן עֶשְׂרִים  
 और-दसवां-भाग दसवां-भाग मेढे-के-लिए एक-के लो-के-लिए दस-के-लिए दस-के-लिए  
[H6241](#) [H6241](#) [H3532](#) [H0259](#) [H6240](#) [H0702](#) [H3532](#)

और चोदह मेढों में से हर एक के लिए दो क्वार्ट आटे की भेंट चढ़ाओगे।

16  
 וְשֵׁעִיר-וְעִזִּים אֶחָד חֲטָאתָ מִלְּבָבְךָ עֹלֹת הַתְּמִיד מִנְחָתָהּ וְנֹסֶכֶה:  
 और-बकरा और-बकरियों-का एक पापबलि के-अतिरिक्त होमबलि नित्य-की अन्नबलि-इसकी और-अर्घ-इसका  
[H0259](#) [H5795](#) [H0905](#) [H8548](#) [H4503](#) [H5262](#)

तुम्हें एक बकरा भी पापबलियों के रूप में अर्पित करना चाहिए। यह दैनिकबलि, अन्न और पेय भेंट के अतिरिक्त होगी।

17  
 וּבַיּוֹם הַשְּׁנִי פְּרִים בְּנֵי שָׁנָה אֵלִים שְׁנַיִם עֶשְׂרָה בְּקָרְבָּן בְּנֵי שָׁנָה  
 और-दिन-में दूसरे बैल पुत्र पुत्र वर्ष-के पुत्र दो मेढे दस बारह गाय-के पुत्र  
[H3117](#) [H8145](#) [H6499](#) [H8141](#) [H6240](#) [H1241](#) [H8141](#) [H3532](#)

אַרְבָּעָה עֶשְׂרָה תְּמִימִים:  
 चोदह दस निर्दोष  
[H0702](#) [H6240](#) [H8549](#)

“इस पर्व के दूसरे दिन तुम्हें दोष, रहित बारह साँड, दो मेढे और एक—एक वर्ष के चोदह मेमनों की भेंट चढ़ानी चाहिए।

18  
 וּמִנְחָתָם וְנֹסְכֵיהֶם לְפָרִים לְאֵלִים וְלְכַבְּשִׂים בְּמִסְפָּרָם כְּמִשְׁפָּט:  
 और-अन्नबलि-इनकी और-अर्घ-इनके बैलों-के-लिए मेढों-के-लिए और-मेमनों-के-लिए गिनती-अनुसार नियम-अनुसार  
[H4503](#) [H5262](#) [H6499](#) [H3532](#) [H4557](#) [H4941](#)

तुम्हें साँड, मेढों और मेमनों के साथ अपेक्षित मात्रा में अन्न और पेय भेंट भी चढ़ानी चाहिए।

19  
 וְשֵׁעִיר-וְעִזִּים אֶחָד חֲטָאתָ מִלְּבָבְךָ עֹלֹת הַתְּמִיד וּמִנְחָתָהּ וְנֹסֶכֶה:  
 और-बकरा और-बकरियों-का एक पापबलि के-अतिरिक्त होमबलि नित्य-की अन्नबलि-इसकी और-अर्घ-इनके  
[H0259](#) [H5795](#) [H0905](#) [H8548](#) [H4503](#) [H5262](#)

ס

तुम्हें पापबलि के रूप में एक बकरे की भी भेंट देनी चाहिए। यह दैनिक बलि और अन्नबलि तथा पेय भेंट के अतिरिक्त भेंट होगी।

עֶשֶׂר	אַרְבַּעַה	שָׁנָה	בְּנֵי־	כִּבְשִׁים	שְׁנַיִם	אֵילִם	עֶשֶׂר	עֶשְׂרֵי־	פָּרִים	הַשְּׁלִישִׁי	וּבַיּוֹם	20
दस	चौदह	वर्ष-के	पुत्र	मेम्ने	दो	मेढे	दस	ग्यारह	बैल	तीसरे	और-दिन-में	
<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H8141</a>		<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H8147</a>		<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H6249</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H7992</a>	<a href="#">H3117</a>	

תְּמִימָם:  
निर्दोष  
[H8549](#)

“इस छुट्टी के तीसरे दिन तुम्हें दोष रहित ग्यारह साँड, दो मेढे और एक—एक वर्ष के चौदह मेमनों की भेंट चढ़ानी चाहिए।

וּמִנְחָתָם	וְנִסְכֵיהֶם	לְפָרִים	לְאֵילִם	וְלִכְבָּשִׁים	בְּמִסְפָּרָם	כַּמִּשְׁפָּט:	21
और-अन्नबलि-इनकी	और-अर्घ-इनके	बैलों-के-लिए	मेढों-के-लिए	और-मेम्नों-के-लिए	गिनती-अनुसार	नियम-अनुसार	
<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H4557</a>	<a href="#">H4941</a>	

तुम्हें बैलों, मेढों और मेमनों के साथ अपेक्षित मात्रा में अन्न और पेय की भेंट भी चढ़ानी चाहिए।

וּשְׂעִיר	חֲטָאת	אֶחָד	מִלִּבְרַךְ	עֹלֹת	הַתְּמִיד	וּמִנְחָתָהּ	וְנִסְכָּהּ:	22
और-बकरा	पापबलि	एक	के-अतिरिक्त	होमबलि	नित्य-की	और-अन्नबलि-इसकी	और-अर्घ-इसका	
					<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	

तुम्हें पापबलि के रूप में एक बकरे की भी भेंट देनी चाहिए। यह दैनिक बलि और अन्नबलि तथा पेय भेंट के अतिरिक्त भेंट होनी चाहिए।

וּבַיּוֹם	הַרְבִּיעִי	פָּרִים	עֶשְׂרָה	אֵילִם	שְׁנַיִם	כִּבְשִׁים	בְּנֵי־	שָׁנָה	אַרְבַּעַה	עֶשֶׂר	23
और-दिन-में	चौथे	बैल	दस	मेढे	दो	मेम्ने	पुत्र	वर्ष-के	चौदह	दस	
<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7243</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H6235</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3532</a>			<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H6240</a>	

תְּמִימָם:  
निर्दोष  
[H8549](#)

“इस छुट्टी के चौथे दिन तुम्हें दोष रहित दस साँड, दो मेढे और एक—एक वर्ष के चौदह मेमनों की भेंट चढ़ानी चाहिए।

מִנְחָתָם	וְנִסְכֵיהֶם	לְפָרִים	לְאֵילִם	וְלִכְבָּשִׁים	בְּמִסְפָּרָם	כַּמִּשְׁפָּט:	24
अन्नबलि-इनकी	और-अर्घ-इनके	बैलों-के-लिए	मेढों-के-लिए	और-मेम्नों-के-लिए	गिनती-अनुसार	नियम-अनुसार	
<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H4557</a>	<a href="#">H4941</a>	

तुम्हें बैलों, मेढों और मेमनों के साथ अपेक्षित मात्रा में अन्न और पेय की भेंट चढ़ानी चाहिए।

וּשְׂעִיר־	עֵזִים	אֶחָד	חֲטָאת	מִלִּבְרַךְ	עֹלֹת	הַתְּמִיד	מִנְחָתָהּ	וְנִסְכָּהּ:	25
और-बकरा	बकरियों-का	एक	पापबलि	के-अतिरिक्त	होमबलि	नित्य-की	अन्नबलि-इसकी	और-अर्घ-इसका	
						<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	

तुम्हें पापबलि के रूप में एक बकरे की भी भेंट देनी चाहिए। यह दैनिक बलि और अन्नबलि तथा पेय भेंट के अतिरिक्त भेंट होगी।

וּבַיּוֹם	הַחֲמִישִׁי	פָּרִים	הַשְּׁעָה	אֵילִם	שְׁנַיִם	כִּבְשִׁים	בְּנֵי־	שָׁנָה	אַרְבַּעַה	עֶשֶׂר	26
और-दिन-में	पाँचवें	बैल	नौ	मेढे	दो	मेम्ने	पुत्र	वर्ष-के	चौदह	दस	
<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2549</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H8672</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3532</a>			<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H6240</a>	

תְּמִימָם:  
निर्दोष  
[H8549](#)

“इस छुट्टी के पाँचवें दिन तुम्हें दोष रहित नौ साँड, दो मेढे और एक—एक वर्ष के चौदह मेमनों की भेंट चढ़ानी चाहिए।

וּמִנְחָתָם	וְנִסְכֵיהֶם	לְפָרִים	לְאֵילִם	וְלִכְבָּשִׁים	בְּמִסְפָּרָם	כַּמִּשְׁפָּט:	27
और-अन्नबलि-इनकी	और-अर्घ-इनके	बैलों-के-लिए	मेढों-के-लिए	और-मेम्नों-के-लिए	गिनती-अनुसार	नियम-अनुसार	
<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H6499</a>		<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H4557</a>	<a href="#">H4941</a>	

तुम्हें बैलों, मेढों और मेमनों के साथ अपेक्षित मात्रा में अन्न तथा पेय की भी भेंट चढ़ानी चाहिए।

28	וּשְׁעִיר और-बकरा	חַטָּאת पापबलि	אֶחָד एक	מִלְבָּד के-अतिरिक्त	עֲלֹת होमबलि	הַתְּמִיד नित्य-की	וּמִנְחָתָהּ और-अन्नबलि-इसकी	וְנֹסְכָהּ: और-अर्घ-इसका	—
			<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0905</a>	<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	

तुम्हें पापबलि के रूप में एक बकरे की भी भेंट देनी चाहिए। यह दैनिक बलि और अन्नबलि तथा पेय भेंट के अतिरिक्त भेंट होगी।

29	וּבַיּוֹם और-दिन-में	חֹטֵי छठे	בָּרִים बैल	שְׁמֹנֶה आठ	אֵילִם मेढ़े	שְׁנָיִם दो	כִּבְשִׁים मेमने	בְּנֵי- पुत्र	שָׁנָה वर्ष-के	אַרְבָּעָה चौदह	עֶשְׂרֵם दस	תְּמִימָם: निर्दोष
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H8345</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H8083</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H8549</a>	

“इस छुट्टी के छठे दिन तुम्हें दोष रहित आठ साँड, दो मेढ़े और एक—एक वर्ष के चौदह मेमनों की भेंट चढ़ानी चाहिए।

30	וּמִנְחָתָם और-अन्नबलि-इनकी	וְנֹסְכֵיהֶם और-अर्घ-इनके	לְבָרִים बैलों-के-लिए	לְאֵילִים मेढ़ों-के-लिए	וְלִכְבָּשִׁים और-मेमनों-के-लिए	בְּמִסְפָּרָם गिनती-अनुसार	כְּמִשְׁפָּט: नियम-अनुसार		
	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H4557</a>	<a href="#">H4941</a>		

तुम्हें बैलों, मेढ़ों और मेमनों के साथ अपेक्षित मात्रा में अन्न और पेय की भेंट भी चढ़ानी चाहिए।

31	וּשְׁעִיר और-बकरा	חַטָּאת पापबलि	אֶחָד एक	מִלְבָּד के-अतिरिक्त	עֲלֹת होमबलि	הַתְּמִיד नित्य-की	וּמִנְחָתָהּ अन्नबलि-इसकी	וְנֹסְכֵיהָ: और-अर्घ-इनके	—
			<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0905</a>	<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	

तुम्हें पापबलि के रूप में एक बकरे की भी भेंट देनी चाहिए। यह दैनिक बलि और अन्नबलि तथा पेय भेंट के अतिरिक्त भेंट होगी।

32	וּבַיּוֹם और-दिन-में	הַשְּׁבִיעִי सातवें	בָּרִים बैल	שֶׁבַע सात	אֵילִם मेढ़े	שְׁנָיִם दो	כִּבְשִׁים मेमने	בְּנֵי- पुत्र	שָׁנָה वर्ष-के	אַרְבָּעָה चौदह	עֶשְׂרֵם दस	
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H6240</a>		

תְּמִימָם:  
निर्दोष  
[H8549](#)

“इस छुट्टी के सातवें दिन तुम्हें दोष रहित सात साँड, दो मेढ़े, और एक—एक वर्ष के चौदह मेमनों की भेंट चढ़ानी चाहिए।

33	וּמִנְחָתָם और-अन्नबलि-इनकी	וְנֹסְכֵיהֶם और-अर्घ-इनके	לְבָרִים बैलों-के-लिए	לְאֵילִים मेढ़ों-के-लिए	וְלִכְבָּשִׁים और-मेमनों-के-लिए	בְּמִסְפָּרָם गिनती-अनुसार	כְּמִשְׁפָּטָם: नियम-अनुसार		
	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H3532</a>	<a href="#">H4557</a>	<a href="#">H4941</a>		

तुम्हें बैलों, मेढ़ों और मेमनों के साथ अपेक्षित मात्रा में अन्न और पेय की भी भेंट चढ़ानी चाहिए।

34	וּשְׁעִיר और-बकरा	חַטָּאת पापबलि	אֶחָד एक	מִלְבָּד के-अतिरिक्त	עֲלֹת होमबलि	הַתְּמִיד नित्य-की	וּמִנְחָתָהּ अन्नबलि-इसकी	וְנֹסְכָהּ: और-अर्घ-इसका	—
			<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0905</a>	<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H5262</a>	

तुम्हें पापबलि के रूप में एक बकरे की भी भेंट देनी चाहिए। यह दैनिक बलि और अन्नबलि तथा पेय भेंट के अतिरिक्त भेंट होगी।

35	בַּיּוֹם दिन-में	הַשְּׁמוֹנִי आठवें	עֲצֵרֶת सभा	תְּהִיָּה होगी	לְכֶם तुम्हारे-लिए	כֹּל- कोई-भी	מְלָאכָת काम	עֲבֹדָה सेवकाई-का	לֹא नहीं	תַּעֲשׂוּ: तुम-करोगे
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H8066</a>	<a href="#">H6116</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4399</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H3808</a>		

“इस छुट्टी का आठवाँ दिन तुम्हारी विशेष बैठक का दिन है। तुम्हें उस दिन कोई काम नहीं करना चाहिए।

36	וְהִקְרַבְתֶּם और-तुम-चढ़ाओगे	עֹלָה होमबलि	אֵשֶׁה अग्नि-बलि	רִיחַ सुगंध	נִיחֹחַ सुखदायक	לַיהוָה यहोवा-को	פָּר बैल	אֶחָד एक	אֵיל मेढ़ा	אֶחָד एक	כִּבְשִׁים मेमने
	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H0801</a>	<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6499</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3532</a>	

בְּנֵי-  
पुत्र  
שָׁנָה  
वर्ष-के  
שֶׁבַע  
सात  
תְּמִימָם:  
निर्दोष  
[H8549](#)

तुम्हें होमबलि चढ़ानी चाहिए। ये आग द्वारा दी गई भेंट होगी। यह यहोवा के लिए मधुर सुगंध होगी। तुम्हें दोषरहित एक साँड, एक मेढ़ा और एक—एक वर्ष के सात मेमने भेंट में चढ़ाने चाहिए।

כַּמְשֹׁטֹט׃ नियम-अनुसार <a href="#">H4941</a>	בְּמִסְפָּרָם गिनती-अनुसार <a href="#">H4557</a>	וּלְכַבְּשֵׁי और-मेमनों-के-लिए <a href="#">H3532</a>	לְאִיל मेढ़े-के-लिए	לְפָר बैल-के-लिए <a href="#">H6499</a>	וְנֹסְכֵיהֶם और-अर्घ-इनके <a href="#">H5262</a>	מִנְחָתָם अन्नबलि-इनकी <a href="#">H4503</a>	37
--	--	--	------------------------	--	---	--	----

तुम्हें साँड, मेढ़ा और मेमनों के लिए अपेक्षित मात्रा में अन्न और पेय की भी भेंट देनी चाहिए।

וְנֹסְכָה׃ और-अर्घ-इसका <a href="#">H5262</a>	וּמִנְחָתָהּ और-अन्नबलि-इसकी <a href="#">H4503</a>	הַתְּמִיד नित्य-की <a href="#">H8548</a>	עֹלֹת होमबलि	מִלְבָּב के-अतिरिक्त <a href="#">H0905</a>	אֶחָד एक <a href="#">H0259</a>	חַטָּאת पापबलि	וּשְׂעִיר और-बकरा	38
---	--	--	-----------------	--	--------------------------------------	-------------------	----------------------	----

तुम्हें पापबलि के रूप में एक बकरे की भी भेंट देनी चाहिए। यह दैनिक बलि और अन्नबलि तथा पेय भेंट के अतिरिक्त भेंट होनी चाहिए।

וְנִדְבָתֵיכֶם और-स्वेच्छाबलियों-तुम्हारी <a href="#">H5071</a>	מִנְדְּרֵיכֶם मन्नतों-तुम्हारी <a href="#">H5088</a>	לְבָר के-अतिरिक्त <a href="#">H0905</a>	בְּמוֹעֲדֵיכֶם मोआदों-तुम्हारे-में <a href="#">H4150</a>	לַיהוָה यहोवा-के-लिए <a href="#">H3068</a>	תַּעֲשׂוּ तुम-करोगे	אֵלֶּה ये <a href="#">H0428</a>	39
---	--	---	--	--	------------------------	---------------------------------------	----

וּלְשִׁלְמֵיכֶם׃ और-मेलबलियों-तुम्हारी <a href="#">H8002</a>	וּלְנֹסְכֵיכֶם और-अर्घों-तुम्हारे <a href="#">H5262</a>	וּלְמִנְחֹתֵיכֶם और-अन्नबलियों-तुम्हारी <a href="#">H4503</a>	לְעֹלֹתֵיכֶם होमबलियों-तुम्हारी-के-लिए
--	---	---	---

“वे (तुम्हारे) विशेष छुट्टियाँ यहोवा के सम्मान के लिए हैं। तुम्हें उन विशेष मनौतियों, स्वेच्छा भेंटों, होमबलियों मेलबलियों या अन्न और पेय भेंटों, जो तुम यहोवा को देना चाहते हो, उसके अतिरिक्त इन विशेष दिनों को मनाना चाहिए।”

פ —	מֹשֶׁה׃ मूसा	אֶת को	יְהוָה यहोवा	צִוָּהּ आज्ञा-दी	אֲשֶׁר- जो	כָּכֹל सब-के-अनुसार <a href="#">H3605</a>	יִשְׂרָאֵל इसाएल <a href="#">H3478</a>	בְּנֵי पुत्रों-के	אֵל- से	מֹשֶׁה मूसा <a href="#">H4872</a>	וַיֹּאמֶר और-कहा <a href="#">H0559</a>	40
-----	-----------------	-----------	-----------------	---------------------	---------------	---	--	----------------------	------------	---	--	----

मूसा ने इसाएल के लोगों से उन सभी बातों को कहा जो यहोवा ने उसे आदेश दिया था।